

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जायात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 1 आई टी सी (पी एन)/79

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

विषय: स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

भिसिल सं० 12/4/78-ई०पी०सी०.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 89-आई टी सी (पी एन)/78 दिनांक 30 नवम्बर, 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि 31 दिसम्बर, 1978 को या इससे पहले स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह 10 ग्राम शुद्ध सोने (1.000 फाइननेस) के लिए लागू स्थानीय करों के अतिरिक्त 590 रुपये होगी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 31 जनवरी, 1979 को या इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत रिहाई आदेश के धारकों को जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह 10 ग्राम शुद्ध सोने (1.000 फाइनैस) के लिए लागू स्थानीय करों के अतिरिक्त 620 रुपये (छः सो बीस रुपये मात्र) होगी।

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 1-ITC(PN)/79

New Delhi, the 1st January, 1979

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme

[F. No. 12/4/78-EPC/3978].—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 89-ITC(PN)/78 dated the 30th November, 1978 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India on or before 31st December, 1978 would be Rs. 590 for 10 grammes of pure gold (1,000 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it is hereby notified that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by the State Bank of India on or before the 31st January, 1979 would be Rs. 620 (Rupees six hundred and twenty only) for 10 grammes of pure gold (1,000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

Divis. n. 100
Acc. No. 21125
Date of 8/10/80
Coll. Checked
Pr
Da